

चोरी की बाईक सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना निवाडी पुलिस द्वारा दिनांक 19.8.2019 को समय 00.10 बजे चैकिंग संदिग्ध वाहन एवं व्यक्ति के दौरान नहर पुल निवाडी से सोनू पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम सौन्दा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी बार्डर से चोरी की गयी मोटर साईकिल डिस्कवर न0 डी0एल 7 एसबी एस 7873 ,फर्जी न0 डी0एल 5 एसबी एस 7773 की नम्बर प्लेट लगाकर चलाते समय गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभि0 द्वारा बताया गया के यह मोटर साईकिल मैने व मेरे 2 साथी
1-छोटू उर्फ सुमित पुत्र अनिल निवासी ग्राम डिडौली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद
2-मोनू पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम डिडौली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ने थाना लोनी बार्डर क्षेत्र से चोरी की थी

विवरण गिरफ्तारशुदा अभियुक्त:-

1- सोनू पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम सौन्दा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद,
अभियुक्त से बरामदगी का विवरण:-

1- मोटर साईकिल डिस्कवर न0 डी0एल 7 एसबी एस 7873

गिरफ्तारी हेतु शेष अभियुक्त:-

1- छोटू उर्फ सुमित पुत्र अनिल निवासी ग्राम डिडौली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद
2-मोनू पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम डिडौली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

120 पक्का अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 18.8.19 को समय 23:05 बेहटा पुलिया से अभियुक्तगण 1-दीपक पुत्र रामनिवास निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गा0बाद 2-राजकुमार पुत्र आशाराम निवासी अम्बेडकर कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी ,गा0बाद को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 120 पक्का अवैध शराब हरियाणामार्का बरामद हुयी है।

वैन चालक हत्याकांड का हत्यारोपी गिरफ्तार- दिनांक 03/08/2019 की प्रातः जितेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश नि0 ग्राम भैंसाखुर थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर स्कूल वैन से बच्चो को स्कूल लाने व ले जाने के लिए निकला था कि जब वह आईडियल कालेज के पास रेलवे लाईन के निकट पहुंचा तो मोटर साईकिल सवार राजीव कुमार ने जितेन्द्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके संबंध में थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 540/19 धारा 302 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था। नामजद हत्यारोपी राजीव चौहान पुत्र रमेश चन्द नि ग्राम करौठी थाना स्याना जिला बुलन्दशहर को आज थाना मसूरी पुलिस द्वारा समय करीब 12.40 बजे दिन मैक्सवेल अस्पताल के पास से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह कहीं जाने की फिराक में था। पूछताछ पर

अभियुक्त ने बताया कि मृतक जितेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी भैसाखुर थाना बीबी नगर जनपद बु 0शहर हाल पता आकाशनगर थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद हमारे गांव के पास का रहने वाला था, तथा मौहल्ले में भी पास में ही रहकर एक साल पहले मेरी गाडी पर ड्राइवरी करता था और जिस कारण इसका मेरे घर पर काफी आना-जाना था। मेरी पत्नी के पास में बिना मेरी मौजूदगी में काफी आता-जाता था। इसने मेरी पत्नी से अवैध सम्बन्ध बना लिये थे। तब मैंने इसे अपनी गाडी से हटा दिया था। फिर भी यह नहीं माना व मौका पाते ही चोरी छुपे मेरी पत्नी के पास आता-जाता था। जिस कारण मेरी मौहल्ले में काफी बदनामी हो रही थी। जिससे मेरा जीना दुभर हो गया था। मैंने इसे अपने रास्ते से हटाने की योजना बना ली और मौका पाते ही दिनांक 3.8.19 को प्रातः 7.00 बजे आईडियल रोड पर जितेन्द्र को मैंने देशी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता-

- (1) राजीव चौहान पुत्र रमेश चन्द नि0 ग्राम करौठी थाना स्याना जिला बुलन्दशहर हाल निवासी आकाशनगर थाना मसूरी गाजियाबाद

02 जुआरी गिरफ्तार कब्जे से 52 ताश पत्ते व 470 रूपये बरामद- थाना मसूरी पुलिस टीम को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब दिनांक 1 8/08/2019 को उस्मान कालोनी डासना के कब्रिस्तान के पास से पैसो की हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 52 ताश पत्ते व 470 रूपये बरामद हुए। दोनो व्यक्तियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता-

- (1) नदीम पुत्र नसीम निवासी उस्मानगढी डासना थाना मसूरी गा0बाद
- (2) साहिल पुत्र हकीमुददीन निवासी मौ0 दसविसा बारातघर के पास थाना मसूरी गा0बाद

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी

अभियुक्तों के कब्जे से 52 ताश पत्ते तथा 470 रूपये बरामद हुए।

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा दिनांक 19.08.19 को थाना लिंकरोड क्षेत्र से वाद सं0- 465/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रिंक पुत्र ओम प्रकाश निवासी ललरिया मिर्जापुर थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर हाल पता सुरेन्द्र का मकान अम्बेडकर ग्राम झण्डापुर थाना लिंकरोड गा0बाद को गिरफ्तार किया है।

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू बरामद - थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा दिनांक 19.08.19 को थाना लिंकरोड क्षेत्र से अभियुक्त बिबाल पुत्र महमूद निवासी रामशरण वाली गली ग्राम साहिबाबाद थाना लिंकरोड गा0बाद को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 01 चाकू बरामद हुआ है।